



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 979 राँची, बुधवार,

27 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

21 नवम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-74/2018-26946 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती सीमा कुमारी, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध सेन्हा अंचल के मौजा-बदला, थाना सं0-148 के आर0एस0 खाता सं0-519, प्लॉट सं0-2080, रकबा 2.50 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि, जो बुधवा उराँव, पिता-गोरा उराँव के नाम पर पूर्व में बन्दोबस्त है तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम थी, का दाखिल खारिज सुरेश महतो, पिता-स्व0 बासुदेव महतो के नाम पर करने, बुधवा उराँव के उत्तराधिकारी को बंदोबस्त भूमि से बेदखल करने एवं उक्त भूमि की रक्षा के लिए नियमसंगत कार्रवाई करने के वजाय सरकारी भूमि हड़पने वाले के पक्ष में दाखिल खारिज करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-55(i)/स्था0, दिनांक 10.07.2018 द्वारा संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती कुमारी को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती कुमारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, लोहरदगा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SEEMA KUMARI 110061163093	श्रीमती सीमा कुमारी, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
